

प्रेस नोट दिनांक-15.10.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री दीनदयाल सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त राजकुमार पुत्र कलुआ निवासी घाटा कोलान थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 15 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बहिलपुरवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

15 क्वार्टर देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा थाना बहिलपुरवा
2. आरक्षी रामकेश कुशवाहा

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री रामाश्रय यादव के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह तथा उनकी टीम द्वारा जिलाबदर अभियुक्त छक्की उर्फ मिथलेश यादव पुत्र बैजनाथ यादव निवासी साईपुर थाना पहाड़ी चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। इस अभियुक्त द्वारा जिलाधिकारी महोदय के जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा था। जिलाबदर के नियमों का उल्लंघन करने पर गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 150/21 धारा 10 यूपी0 गुण्डा एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह थाना पहाड़ी
2. आरक्षी जब्बार अहमद
3. आरक्षी दिलीप कुमार

(3). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान “मिशन शक्ति फेज-3” के तहत जनपद के समस्त थानों की एंटी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान “मिशन शक्ति फेज-3” के तहत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 15.10.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में एंटी रोमियो टीम थाना द्वारा अशोक चौराहा व किला चौराहा में, एंटी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा मानिकपुर कस्बा, एसबीआई बैंक, इंडियन बैंक, डाट पुल के निकट, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चुंगी चौराहा, रामलीला मैदान में, एंटी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा कस्बा भरतकूप, अकबरपुर एवं भरतकूप मंदिर रोड में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सिन के प्रति जागरूक किया गया। एंटी रोमियो टीम की महिला आरक्षियों द्वारा बालिकाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गयी। एंटी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एंटी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

भ्रमण के दौरान महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से

उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हैल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हैल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया।

(4). आज दिनांक 15.10.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री राजीव कुमार सिंह की उपस्थिति में विजय दशमी त्यौहार के दृष्टिगत ड्रोन कैमरे से कर्वी शहर में विभिन्न स्थानों की निगरानी की गयी। इस दौरान ड्रोन कैमरे से पुतला दहन स्थल धुस मैदान, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, ट्राफिक चौराहा में सदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नगर रखी गयी। इस दौरान डॉग स्क्वायड द्वारा भी पुतला दहन स्थल धुस मैदान, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन में सदिग्ध वस्तु की चैकिंग की गयी।